

आंधी-तूफान

जांच-सूची

आंधी-तूफान की स्थिति में तैयारी करने में आपकी मदद करने के लिए जांच-सूची

nbn™ नेटवर्क से कनेक्ट उपकरण बिजली जाने की स्थिति में काम नहीं करेगा।

यह सुनिश्चित करें कि आपके पास बैटरी से चलने वाला रेडियो है और आपका मोबाइल फोन पूरी तरह चार्ज है।

आंधी-तूफान से पहले क्या आपने:

- अपने घर के आसपास की सभी खुली पड़ी वस्तुओं को सुरक्षित कर लिया है?
- अपने गटर, डाउनपाइप्स और नालियों को साफ कर लिया है?
- ऐसे पेड़ों और शाखाओं को काट कर छोटा कर दिया है जो आपके घर या प्रापर्टी पर गिर सकते हैं?
- अपनी छत को पहुँचे नुकसान की मरम्मत कर दी है?
- एमर्जेंसी संपर्क नंबरों की सूची बना ली है जिसे आप फ्रिज पर लगा सकते हैं?
- यह जांच कर ली है कि क्या आपकी बीमा नीति वर्तमान और पर्याप्त है?
- अपने परिवार से बात करके एमर्जेंसी (आपातकालीन) योजना बना ली है? ses.sa.gov.au वेबसाइट से टेम्पलेट डाउनलोड करें
- एमर्जेंसी किट तैयार कर ली है? एमर्जेंसी किट चेकलिस्ट देखें
- अपने मोबाइल यंत्र चार्ज कर लिए हैं?

यदि आंधी-तूफान संबंधी चेतावनी जारी की जाती है तो क्या आपने:

- अपनी आपातकालीन योजना सक्रिय कर ली है?
- अपनी एमर्जेंसी किट खोज ली है?
- अपने पड़ोसियों की जांच कर ली है? क्या उन्हें आंधी-तूफान संबंधी चेतावनी के बारे में पता है?
- सूचना, ताजी खबर और सलाह के लिए स्थानीय मीडिया की जांच कर ली है?

आंधी-तूफान के दौरान

- अंदर ही रहें और खिड़कियों से दूर रहें
- यदि आप बाहर हैं, तो सुरक्षित शरण-स्थान खोजें
- यह सुनिश्चित करें कि पालतू पशु सुरक्षित हैं
- आंधी-तूफान संबंधी अपडेट्स के लिए स्थानीय मीडिया की जांच करें।

आंधी-तूफान के बाद

- सूचना, ताजी खबर और सलाह के लिए स्थानीय मीडिया की जांच करें
- अपने घर और प्रापर्टी में सम्भवतः हुए नुकसान के लिए जांच करें
- क्षतिग्रस्त इमारतों, बिजली की तारों और वृक्षों से दूर रहें
- बाढ़ के पानी, मलबे और क्षतिग्रस्त सड़कों या पुलों जैसे सड़क संबंधी खतरों से अवगत रहें
- बाढ़ के पानी में गाड़ी न चलाएँ
- जब ऐसा करना सुरक्षित हो तो अपने पड़ोसियों की जांच करें
- बच्चों को बाढ़ के पानी या इसके नजदीक खेलने की अनुमति न दें।

कभी भी बाढ़ के पानी में गाड़ी या बाइक न चलाएँ या पैदल न चलें



Government of South Australia

